

(Session-2021-22)
Class-X
IIInd Term Examination
Element of Book Keeping and Accountancy
(Hindi and English Version)

Time allowed : 3 hours

M.M. 50

Special Instructions

1. Question paper is divided into two sections Section (A) and Section (B).
2. In section (A) choice is given in every question.
3. All questions are compulsory 10 marks allotted for every questions in section (A).
4. In Section (B) Multiple Choice Questions are given. Every questions carries 1 mark.
5. Marks allotted to each question are Indicated against it
6. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Section-A

- Q.2. What is promissory Note ? What are its characteristics and How many parties are there in promissory Note ?**

प्रतिज्ञा पत्र क्या है ? इसकी क्या विशेषताएं हैं और प्रतिज्ञा पत्र में कितने पक्षकार होते हैं ?

Or/अथवा

On 1st Jan 2012 Satish sold goods to Manish worth Rs 4,000. On the same day Manish approved a bill written by Satish, payable after three months. On the same day Satish discounted it from the bank at the rate of 15% p.a. Manish paid his bill on due date. Make the journal entries in the books of Drawer and Drawee.

1 जनवरी, 2012 को सतीश ने मनीश को 4000 मूल्य का माल बेचा। उसी दिन इसके तीन महीने के बाद देय सतीश द्वारा लिखे एक विपत्र की स्वीकृति मनीष ने दी। उसी दिन सतीश ने यह विपत्र 15% वार्षिक दर से बैंक से भुना लिया। मनीष ने इस देय तिथि पर भुगतान कर दिया।

लेखक तथा स्वीकर्ता की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ बनाइए ?

Q.2. What is depreciation ? why is it provided ? What factors should be considered while determining the depreciation of an asset ?

ह्रास क्या है ? इसका आयोजन क्यों किया जाता है ? किसी सम्पत्ति का ह्रास निर्धारित करने के लिए किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए ?

अथवा

On 1st Jan, 2010 a machine was purchased for Rs. 23000. Cost of its installation was Rs. 2,000. The esti-

mated life of the asset/machine is 5 years, after which its scrap value will be Rs. 5000. Prepare machinery Account for 3 years providing depreciation by fixed instalment method. Accounts are closed every year on 31st December.

1 जनवरी, 2010 को रु 23,000 की मशीन क्रय की गई। इसकी स्थापना पर रु 2000 व्यय आया। मशीन का अनुमानित जीवन 5 वर्ष है। जिसके पश्चात् बेचने पर रु. 5000 अवशेष मूल्य होगा। स्थायी किश्त पद्धति के अनुसार ह्यास लगाते हुए तीन वर्षों के लिए मशीन का खाता बनाईए। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को बन्द किये जाते हैं।

Q.3. Explain the followings :

- (i) Rectification of errors अशुद्धियों का संशोधन
- (ii) Errors of omission भूल सम्बन्धी अशुद्धि
- (iii) Errors of commission लेखे की अशुद्धि
- (iv) Errors of principles सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ

OR

अथवा

Rectify the following entries :

- (i) Purchase Book was undercast by Rs 4000

क्रय खाता 4000 रुपये से कम हो गया।

- (ii) Sales Book was undercast by Rs 2000

विक्रय खाता 2000 से कम हो गया।

(iii) Purchase of machinery worth Rs 12000 wrongly debited to purchase account.

12000 मूल्य की मशीनरी खरीदी और गलती से क्रय खाते में डेबिट कर दी।

(iv) Wages Rs 5,000 paid to Ram Lal wrongly, debited to the Account of Ram Lal

राम लाल को मजदूरी दी जो कि गलती से राम लाल के खाते में डेबिट कर दी।

Section-B

Choose the correct option/सही विकल्प चुनिए

1. In promissory note no of parties are :
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5
2. Indian negotiable Instrument Act....
(a) 1883 (b) 1882
(c) 1881 (d) None of these
3. Due date when acceptance date is 3rd July 2001 and period is 3 months
(a) 6 Nov, 2001, (b) 7 Dec, 2001
(c) 6 Oct, 2001 (d) None of these
4. When bill is discounted from bank then entry is-
(a) B/R a/c
Discount a/c

(b) Bank a/c cash a/c
Discount a/c
To Bills receivable a/c
(Being bill discounted)

(d) None of these

(a) 2

(c) 10	(d) 8
--------	-------

(a) Purchases a/c

(b) Asset a/c

(c) Both a and b

(d) None of these

(a) Cash a/c

87

- (b) Cash a/c
To sales a/c
- (c) Both a and b (d) None of these
8. When amount of depreciation is calculated then scrap value is treated as.
- (a) Cost of asset + scrap value
(b) Cost of asset – scrap value
(c) Cost of asset $\times$ scrap value
(d) None of these
9. When depreciation charged on asset then entry is
- (a) Asset a/c
To depreciation a/c
(b) Depreciation a/c
To asset a/c
(c) Profit and Loss a/c
To Depreciation
(d) None of these
10. Who draws a bill of exchange ?
- (a) Creditor (b) Debtor
(c) Drawer (d) None of the above

11. In Rectification of errors types of errors are :
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 1
12. Which errors not follow the accounting Rules are called
(a) Errors of Ommission
(b) Errors of Principles
(c) Both of a and b
(d) None of these
13. Paid as rent debited to landlord's a/c correct entry is
(a) Rent a/c
 To cash
(b) Landlord's a/c
 To cash
(c) Rent a/c
 To Lanlord's a/c
(d) None of these
14. When a transaction is completely omitted from being recorded, it is called
(a) Errors of Commision
(b) Errors of Omission
(c) Errors of Principle
(d) Errors of Posting

15. When a transaction is wholly or partially recorded incorrectly, It is called
- (a) Errors of Commission
 - (b) Errors of Principle
 - (c) Errors of Omission
 - (d) Errors of Posting
16. The main aim of providing depreciation is :
- (a) To calculate net profit
 - (b) To show previous profit
 - (c) To satisfy the tax department
 - (d) To reduce tax
17. Depreciation arises due to :
- (a) Wear and tear
 - (b) Reduction in the value of assets
 - (c) Reduction in Capital
 - (d) All of these
18. Depreciation is the process of :
- (a) Allocation
 - (b) Valuation
 - (c) Both (a) and (b)
 - (d) None of the above

19. Under the straight line method of providing depreciation, it
- (a) Increases every year
 - (b) Decreases every year
 - (c) Remain constant every year
 - (d) None of the above
20. A promissory note contains :
- (a) An unconditional order
 - (b) A promise
 - (c) A conditional order
 - (d) None of the above
1. प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकारों की संख्या होती है ?
- (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 4
 - (d) 5
2. विनिमय साध्य पत्र अधिनियम-
- (a) 1883
 - (b) 1882
 - (c) 1881
 - (d) इनमें से कोई नहीं
3. बिल की भुगतान तिथि जब स्वीकृति तिथि 3rd july, 2001 और समय तीन महीने होगा।
- (a) 6 Nov, 2001,
 - (b) 7 Dec, 2001
 - (c) 6 Oct, 2001
 - (d) इनमें से कोई भी नहीं

4. जब बिल को छूट पर बैंक से भुनाया जाएगा तो प्रविष्टि होगी-
- (a) B/R a/c
Discount of
To drawer's a/c
(Being Bill discounted)
 - (b) Bank a/c cash a/c
Discount a/c
To bills receivable a/c
(Being bill discounted)
 - (c) दोनों
 - (d) इनमें से कोई नहीं
5. ह्यास की विधियां हैं।
- (a) 2
 - (b) 4
 - (c) 10
 - (d) 5
6. जब कोई सम्पत्ति खरीदी जाती है तब प्रविष्टि होती है
- (a) Purchases a/c
To cash
 - (b) Asset a/c
To cash
 - (c) दोनों a और b
 - (d) कोई भी नहीं।

7. जब कोई सम्पत्ति नकद में बेची जाती है तब प्रविष्टि होती है :-
When asset sold for cash than entry is
(a) Cash a/c
 To asset a/c
(b) Cash a/c
 To sales a/c
(c) दोनों a और b
(d) इनमें से कोई नहीं।
8. जब ह्यास का अवलोकन किया जाता है तो अवशेष मूल्य को दिखाया जाता है।
(a) Cost of asset + scrap value (अवशेष मूल्य)
(b) Cost of asset – scrap value
(c) Cost of asset $\times$ scrap value
(d) इनमें से कोई नहीं
9. जब सम्पत्ति पर ह्यास लगाया जाता है तो प्रविष्टि होती है
(a) Asset a/c
 To depriciation a/c
(b) Depriciation a/c
 To asset a/c
(c) Profit and Loss a/c
 To Depriciation
(d) इनमें से कोई नहीं

10. विनिमय पत्र कौन लिखता है।
(a) लेनदार (b) देनदार
(c) लेखक (d) इनमें से कोई नहीं
11. अशुद्धियों के संशोधन में अशुद्धियों के प्रकार हैं।
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 1
12. जो अशुद्धियों लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं करती हैं वो होती हैं।
(a) भूल सम्बन्धी अशुद्धियां (b) सैद्धान्तिक अशुद्धियां
(c) दोनों a और b (d) इनमें से कोई नहीं
13. किराये का भुगतान किया जो कि मालिक के खाते में डेबिट किये इसकी सही प्रविष्टि होगी।
(a) Rent a/c
To cash
(b) Landlord's a/c
To cash
(c) Rent a/c
To Landlord's a/c
(d) इनमें से कोई नहीं
14. जब एक प्रविष्टि पूरी तरह लिखने से छूट जाती है, तो इसे कहते हैं।
(a) भूल सम्बन्धी अशुद्धि (b) लेख सम्बन्धी अशुद्धि
(c) सैद्धान्तिक अशुद्धि (d) प्रविष्टि करते समय की अशुद्धि

15. जब लेन देन पूरी तरह या कुछ तरह से लिखने से रह जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं।
 (a) लेखे सम्बन्धी अशुद्धि (b) सिद्धान्तिक अशुद्धि
 (c) भूल सम्बन्धी अशुद्धि (d) प्रविष्टि करते समय की अशुद्धि
16. ह्यस लगाने का मुख्य उद्देश्य है।
 (a) शुद्ध लाभ ज्ञात करना (b) पिछला लाभ दिखाना
 (c) कर विभाग (d) कर कम करना
17. ह्यस उत्पन्न होता है-
 (a) टूट-फूट के कारण (b) सम्पत्ति के मूल्य में कमी के कारण
 (c) पूंजी में कमी के कारण (d) इन सभी के कारण
18. ह्यस एक प्रक्रिया है :
 (a) बटवारे की (b) मूल्यांकन की
 (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं
19. स्थायी किस्त पद्धति ह्यस लगाने की, में ह्यस का मूल्य
 (a) प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। (b) प्रत्येक वर्ष कम होता है।
 (c) प्रत्येक वर्ष एक समान होता है।
 (d) इनमें से कोई नहीं
20. प्रतिज्ञा पत्र होता है।
 (a) एक शर्त रहित आज्ञा पत्र। (b) एक वचन
 (c) एक शर्त सहित आज्ञा पत्र (d) इनमें से कोई नहीं।